



श्रीमती निर्मला सीतारमण

सदस्य का नाम	:	श्रीमती निर्मला सीतारमण
पिता का नाम	:	स्वर्गीय श्री नारायणन सीतारमण
माता का नाम	:	स्वर्गीय श्रीमती सावित्री
जन्म तिथि	:	18 अगस्त, 1959
जन्म स्थान	:	मदुरै (तमिलनाडु)
वैवाहिकस्थिति	:	12 सितम्बर, 1986 को विवाहित
पति का नाम	:	डॉ. परकला प्रभाकर
संतान	:	एक पुत्री

शैक्षिक योग्यता:

स्नात्कोत्तर (अर्थशास्त्र), एम.फिल, सीतालक्ष्मी रामास्वामी महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शिक्षा ग्रहण की।

व्यवसाय:

अर्थशास्त्री और राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता

स्थायी पता:

मार्फत, के.लक्ष्मी नारायण, 911, 21वीं मेन, 38वां क्रॉस, चौथा टी-ब्लॉक, जयनगर, बंगलुरु, कर्नाटक-560041

वर्तमान पता:

15, सफदरजंग रोड़, नई दिल्ली . दूरभाष: 23793791, 23793792

धारित पद

2003-2005 सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, 26 मई, 2014-9 नवम्बर, 2014, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, 26 मई, 2014 से अब तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जून, 2014 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित किया गया (17 जून, 2016 को त्याग पत्र दिया) जुलाई, 2016 में राज्य सभा के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया ।

खेलकूद, क्लब, पंसदीदा आमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन:

यात्रा, लंबी पैदल यात्रा, संगीत एवं पाक कला

दौरा किए गए देश

थाइलैंड, एशियन-इंडिया एक्सपो, अगस्त, 2017, डीजी के साथ स्विट्जरलैंड बैठक, □□□□□□□□□□ चीन, ब्रिक्स ट्रेड मंत्रियों की बैठक, जुलाई 2017, रूस सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच फ्रांस, ओईसीडी एचसीएच के अवसर पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की अनौपचारिक बैठक, जून, 2017, वियतनाम, तीसरा, अंतर-सत्रीय आरसीईपी वार्ताएं मॉरक्को, भारत का पांचवा सत्र, सत्र-मोरक्को जेसीएच, जर्मनी, चौथा अंतर-शासकीय परामर्श, मई, 2017 में संयुक्त आयोग की बैठक इटली ; अप्रैल, 2017 में जापान द्विपक्षीय दौरा ; फरवरी, 2017 में साइप्रस की द्विपक्षीय यात्रा; जनवरी, 2017 में डावोस में विश्व आर्थिक मंच का प्रतिनिधित्व; नवम्बर, 2016 में फिलीपींस में द्वितीय इंटर-सेशनल क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मंत्रालयी बैठक में भाग लिया ; नवम्बर, 2016 में भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन पर समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु भूटान ; श्रीलंका में सितम्बर, 2016 में द्विपक्षीय बैठक में उपस्थिति ; कनाडा में सितम्बर, 2016 में वार्षिक मंत्रालय वार्ता में उपस्थिति ; नार्वे में अक्टूबर, 2016 में विश्व व्यापार संगठन व्यापार मंत्रियों की बैठक में उपस्थिति ; रूस में जुलाई, 2016 में इन्नोप्रोम-2016 में उपस्थिति; म्यांमार में मई, 2016 में भारत-म्यांमार व्यापार कॉन्क्लेव में उपस्थिति; पेरिस (फ्रांस) में जून, 2016 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में उपस्थिति ; ब्रुसेल्स और लंदन में मार्च-अप्रैल, 2016 में भारत में ईयू शिखर सम्मेलन और ईयू के साथ द्विपक्षीय बैठक में भागीदारी; सेन फ्रांसिसको में नवम्बर, 2015 में फार्च्यून ग्लोबल फोरम-2015 में भागीदारी ; नैरोबी (केनिया) में दिसम्बर, 2015 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रालयी सम्मेलन-2015 में उपस्थिति; मिंस्क (बेलारूस) में सितम्बर, 2015 में आर्थिक, व्यापार,

औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के सातवें सत्र एवं द्विपक्षीय बैठक में उपस्थिति ; न्यूयार्क और सेन जोस (यूएसए) में सितम्बर, 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में बैठकों में भागीदारी; क्वालालंपुर (मलेशिया) में जुलाई और अगस्त, 2015 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) इंटर-सेशनल मंत्रालयी एवं द्विपक्षीय बैठक में भागीदारी; अल्जीरिया में मई, 2015 में भारत-अल्जीरिया जेसीएम ; आस्ट्रेलिया में जुलाई, 2014 में सिडनी में आयोजित जी-20 की व्यापार मंत्रियों की बैठक में भागीदारी और सितम्बर, 2014 में केयन्स में आयोजित जी-20 की वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक में उपस्थिति ; ब्राजील में जुलाई, 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भागीदारी ; चीन में जून, 2014 में भारत के उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भागीदारी ; ताइवान और यूएसए में क्रमशः मार्च, 2009 और जुलाई, 2012 में पार्टी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भागीदारी ; यू.के. में मार्च, 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिनिर्णायक के सदस्य के रूप में भागीदारी ;

अन्य सूचना

सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भा.ज.पा., 2008 से, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भा.ज.पा., 2010-2014 ।